



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
 भारत मौसम विज्ञान विभाग  
 गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
 उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 29-10-2021

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-10-29 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-10-30	2021-10-31	2021-11-01	2021-11-02	2021-11-03
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	17.0	16.0	15.0	16.0	17.0
न्यूनतम तापमान(से.)	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	55	65	75	70	65
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	50	45	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
पवन दिशा (डिग्री)	320	310	310	110	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	1	1	2	2

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 15.0 से 17.0 व 7.0 से 8.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 4.0 किमी/घंटे की गति से पूर्व-दक्षिण-पूर्व व उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 3 से 9 नवम्बर के दौरान राज्य में वर्षा, अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है।

### सामान्य सलाहकार:

किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" तथा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु "दामिनी ऐप" डाउनलोड करें। मेघदूत व दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि नैनीताल के लिए एनडीवीआई 0.35-0.5 के बीच है, यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम से अच्छी है। किसान भाई, मौसम पूर्वानुमान व मिट्टी में नमी की स्थिति को ध्यान में रखकर ही बुवाई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में मौसम शुष्क रहेगा अतः सभी फसलों व सब्जियों में आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें व रबी फसलों की बुवाई करें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
फील्ड पी	मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सिंचित दशा में तथा कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में असिंचित दशा में मटर की बुवाई पूर्ण करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
अरहर (लाल चना/ अरहर)	घाटियों व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैयार फसल की कटाई कर लें तथा 2-3 दिन सुखाने के बाद गहाई कर दाने अलग कर लें। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फलियों में दाना बनने की अवस्था में हल्की सिंचाई कर लें।
धनिया	किसान भाई धनिये की बुवाई कर सकते हैं।
लहसुन	पिछले माह बोई गई लहसुन की फसल में निराई-गुड़ाई व आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	घाटी क्षेत्रों में, आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें।
गोभी	बन्दगोभी, फूलगोभी फसलों में गुड़ाई के पश्चात् पलवार का प्रयोग करें ताकि नमी संरक्षण हो सके।
पालक	पालक की बुवाई करें।
सेब	बागो से सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम इत्यादि फल वृक्षों की गिरी पत्तियों को इकट्ठा करके गड्ढे में डाले तथा बीमार एवं रोगग्रसित पत्तियों को जलाकर नष्ट कर दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को हरा चारा में सूखा चारा अवश्य मिलाकर दें। अन्यथा आफरा (टिम्पेती) हो सकती है व पनीले दस्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो सकती है।